



# झारखण्ड गजट

## साधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 12 राँची, बुधवार, 30 ज्येष्ठ, 1940 (श०)  
20 जून, 2018 (ई०)

#### विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

**भाग 1**—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 118- 120

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

**भाग 1-क**—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

**भाग 1-ख**—मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस.सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

**भाग 1-ग**—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

**भाग 3**—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

**भाग-4**—झारखण्ड अधिनियम

**भाग-5**—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

**भाग-7**—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

**भाग-8**— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

**भाग-9**— विज्ञापन ---

**भाग-9-क**—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

**भाग-9-ख**—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

**भाग 1****नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

-----

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

आदेश

6 जून, 2018

**संख्या- 5/आरोप-1-523/2014 का.-3961--** श्री राम शंकर राय, सेवानिवृत्त झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक-390/03, गृह जिला-बेगुसराय), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के विरुद्ध श्रीमती श्यामा देवी द्वारा बलात्कार के आरोप में भा०द०वि० की धारा-376 के तहत धनबाद थाना में कांड सं०-433, दिनांक 27 जून, 2006 दर्ज कराने तथा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-99 के तहत विभागीय आदेश सं०-3627, दिनांक 12 जुलाई, 2006 द्वारा श्री राय को निलंबित किया गया।

2. विभागीय आदेश सं०-6691, दिनांक 16 दिसम्बर, 2006 द्वारा श्री राय को पत्र निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया।

3. अपर सत्र न्यायाधीश-V, धनबाद द्वारा उक्त धनबाद थाना में कांड सं०-433, दिनांक 27 जून, 2006, जी०आर० केस नं०-1995/2006 में दिनांक 29 अगस्त, 2017 को पारित न्यायादेश में श्री राय को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है।

4. श्री राय के आवेदन, दिनांक 26 अप्रैल, 2018 द्वारा उक्त न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुए निलंबन अवधि दिनांक 27 जून, 2006 से 16 दिसम्बर, 2006 तक की सेवा विनियमित करने का अनुरोध किया गया है।

5. श्री राय से प्राप्त आवेदन एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के समीक्षोपरांत इनके निलंबन अवधि दिनांक 27 जून, 2006 से 16 दिसम्बर, 2006 तक को विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सूर्य प्रकाश,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

-----

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

अधिसूचना

8 जून, 2018

संख्या-03/नि०सं०-09-08/2018 का. 4052-- श्री ए० के० सत्यजीत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-709/03), उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 4 अप्रैल, 2018 से 17 अप्रैल, 2018 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव ।

-----